



ट्रिपल मर्डर के दोनों आरोपी भेजे गए जेल

- 15 दिन पहले ही बना ली थी लूट की योजना
- प्रेमकिशोर का नया मकान बनाने से समझे थे अच्छे पैसे मिलेंगे
- वारदात के तुरंत बाद ही खाली कर दिया था मंथना वाला कमरा
- बुधवार को पुलिस जेल में जाकर करेगी दोनों से पूछताछ

कानपुर। फजलगंज थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। अब बुधवार को पुलिस की टीम जेल जाकर दोनों से पूछताछ करेगी।

सोमवार रात हुई पूछताछ में दोनों ने बताया कि प्रेमकिशोर ने नया मकान बनवाया था। इससे उन्हें लगा की इसके घर लूट करने पर मोटी रकम हाथ लग जायगी। इससे गौरव और हिमांशू की लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी भी दूर हो जायगी।

वारदात के करीब 15 दिन पहले ही दोनों ने पूरा षण्यंत्र रचा और वारदात कर डाली। दोनों ने घटना करने के कुछ देर बाद ही मंथना का किराए पर लिया गया कमरा भी खाली कर दिया। जब पुलिस दोनों को वहां ले गई तो वहां पर कोई सामान नहीं मिला।

अब अग्रिम कार्रवाई के लिये पुलिस टीम बुधवार को जेल जाकर पूछताछ करेगी। इसके बाद गुरुवार को दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिये अपील की जायगी।

यह थी पूरी घटना

घटना बीते शनिवार 2-10-21 की है। थाना फजलगंज क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोग घर के अंदर मृत पड़े मिले थे। फजलगंज सिटी बस डिपो के सामने उंचवा मोहल्ले में रहने वाले प्रेम किशोर (45) घर पर ही परचून की दुकान चलाते थे। शनिवार सुबह दूध वाला आया तो काफी देर तक आवाज दी लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। मामला संदिग्ध लगने पर पड़ोस में रहने वाले भाई राज किशोर मौके पर आए और ताला तोड़कर भीतर गए तो दंग रह गए। अंदर प्रेम किशोर और उनकी पत्नी गीता (40) के साथ ही 12 साल का बच्चा नैतिक का शव पड़ा था। तीनों के हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे।

घटना के 48 घण्टे के अंदर ही पुलिस ने राजफाश कर दिया।

पकड़े गये अभियुक्तों की पहचान बकेवर इटावा निवासी गौरव शुक्ला और उसके महेवा इटावा निवासी हिमांशू चौहान के रूप में हुई थी। वारदात के बाद हिमांशू कुछ पैसे लेकर नोएडा भाग गया और गौरव अपने कानपुर देहात के झीझक निवासी दोस्त के यहां चला गया। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है।

यह मिले थे साक्ष्य

वारदात के दौरान गौरव ने प्रेमकिशोर का गला रेतने का भी प्रयास किया था, इससे उसके हाथों में चाकू के कट भी लग गये थे। इसके अलावा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को बेंजाडीन टेस्ट करावाया जिससे इनके कपड़ों और जूतों में खून के निशान लगे हुए मिले। दोनों ने खून के धब्बे साफ करने का खूब प्रयास किया लेकिन वह टेस्ट में पकड़ आ गये। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है।

यह होगी अग्रिम कार्यवाही

अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। अभियुक्तों से लूटी गई रकम, लूटी गई मोटरसाइकिल की भी बरामदगी कराई जाएगी। इस हत्याकांड के पीछे कोई और साजिश तो नहीं है इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टेस्ट से जो साक्ष्य मिले हैं इसका भी मिलान कराया जाएगा।